



Moving Every Mile With A Smile

संवाद

Maheshwari Logistics Ltd.



Coal



Logistics



Paper

April-June 2021
ISSUE 11

क्षमावशीकृतिलोके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः।।

Forgiveness is an Enchantment in the world, everything can be proven by forgiveness. What can a wicked person do to someone who has the sword of peace in his hands!



स्पर्श

Restriction- नियंत्रण

नियंत्रण को अगर हम इस प्रकार से समझें कि अगर बैल से संभल कर रहना है तो उसे रस्सी के नियंत्रण में रखना ही होगा, नदी को यदि सत्यानाश करने से रोकना है तो उसे किनारे के नियंत्रण में रखना ही होगा। आभूषणों को अगर सुरक्षित रखना है तो उस पर तिजोरी का नियंत्रण रखना ही होगा। उसी प्रकार जीवन को यदि सुरक्षित और संस्कारी रखना है, पवित्र और शुद्ध रखना है तो उस पर उचित नियंत्रण रखने ही होंगे। सिग्नल की लाल बत्ती ने लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित कर दिया है, मैदान पर अंकित की गयी रेखा (क्रीज़) ने अनेक खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। रास्ते पर लगाए गए 'आगे खतरा है' के साइन बोर्ड ने कितने ही मुसाफ़िरों और यात्रियों के जीवन की सुरक्षा को निश्चित कर दिया है। नियंत्रणों को अगर चार नामों में समाविष्ट करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं-

आँखों पर शर्म का नियंत्रण

जीभ पर संस्कारों का नियंत्रण

मन पर विवेक का नियंत्रण

जीवन पर संयम का नियंत्रण

उचित नियंत्रण के ये जो चार तत्व हैं- शर्म, संस्कार, विवेक और संयम वे मात्र व्यक्ति की ही शक्ति नहीं हैं बल्कि परिवार, समाज, और देश की भी शक्ति हैं। व्यक्ति-परिवार-समाज- देश अगर लज्जा-संस्कार-विवेक-संयम रूपी नियंत्रणों को महत्व दे तो निश्चित ही देश संरक्षण के साधनों की उपेक्षा नहीं कर पाएगा, समाज निश्चित प्रकार की व्यवस्था की अवहेलना नहीं कर पाएगा, परिवार मर्यादा व्यवस्था को अनदेखा नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति निश्चित प्रकार की जीवन शैली के प्रति लापरवाह नहीं हो पाएगा।

नियंत्रण हो अगर खुद पर, हर प्रयास सफल हो जाएगा।

संतुलित होगा निरन्तर पथ पर, मंज़िल तक भी पहुँच जाएगा।।

Mukta Maheshwari
Editor - Samvad



समन्वय

सुज्ञ पाठक बंधु,

आप सभी का अभिवादन करते हुए आशा करता हूँ कि आप सब अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। पिछले वर्ष के प्रारम्भ से ही कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में छा गयी थी। और ये हमें तो बहुत ही असर कर गयी, कारण जैसा कि आप सब को विदित ही है कि अपनी कम्पनी के तीनों मुख्य परिवार, (माहेश्वरी, काबरा, और वशी), के आधार स्तम्भ बुजुर्ग जुलाई 2020 के एक ही महीने में हम सब से अचानक विदा ले गए। मैं आज उन सबको हृदय से नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। एक ही महीने में सब परिवारों के मुखियाओं के एक साथ छोड़ कर चले जाने से सभी को गहरा सदमा लगा परंतु इसे प्रकृति का नियम मान कर हम सब उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आगे की और अग्रसर हो रहे हैं।

जैसा कि मैंने पिछली बार लिखा था कि हम सबके मजबूत मनोबल से हम सब इस कोरोना महामारी से संभल जाएँगे और ऐसा ही हुआ भी, कुछ छः महीनों के बाद धीरे-धीरे परिस्थितियाँ सामान्य होने लगीं पर हम सुरक्षा को ले कर लापरवाह हो गए और कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गए, जो सभी पर बहुत भारी रही, मगर हम इस से भी बाहर निकल रहे हैं।

इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हम सब को सरकार का सहयोग करना होगा। जैसे कि एक छोटे से घर परिवार का कोई भी कार्य उस परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से सम्भव हो पता है उसी तरह सामाजिक, व्यापारिक, शिक्षण संस्थाओं आदि में भी उनका कार्य उन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही सही, सुचारु रूप से सम्भव होता है। अपनी कम्पनी का संचालन भी, इसके कर्णधार श्री नीरज माहेश्वरी और साथ में निर्देशक मंडल, आप सभी के सहयोग से ही सफलता पूर्वक कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। भविष्य में भी कम्पनी आप सब से इसी तरह सहयोग की अपेक्षा रखती है।

अंत में आप सब से करबद्ध निवेदन है कि सरकारी निर्देशों, (मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी, हाथों को नियमित धोना आदि), का पालन करें जिस से कोरोना की तीसरी लहर से हम सब सुरक्षित रह पाएँ।

Krishnavtar Kabra
Mentor, Maheshwari Logistics Ltd.



श्रीमती छगन कंवर

श्रद्धांजलि



श्री स्नेहल देसाई

A Tribute



Late Shri Snehal Desai

If there ever comes a day
when we can't be together,
keep me in your heart

Kamini Desai, Vapi



Priyanka Dubey, MLL House, Shed No A2-3/2, Opp. UPL, 1st Phase, GIDC, VAPI - 396 195. Mobile No. 98243 02806

Health Corner - ORAL HEALTH CARE



Muskan Maheshwari Vapi

Oral health demands care every day as it comprises our precious whites and the tongue. What happens in one's mouth impacts the rest of one's body, and vice versa. Under normal circumstances, the natural body defence mechanisms, combined with good oral health, fight off most potentially harmful bacteria.

Bad practices related to teeth and gums can lead to a variety of health problems like deteriorating teeth, gum diseases, cavities, infections to heart disease, cancer and many other. Bacterias can slip through the weakened gums into the bloodstream making all the other body systems susceptible to infection, injury, or inflammation. However, it can be prevented. The best ways to prevent teeth and gum problems are:



1. Brush regularly- Brushing twice a day is essential for oral health. Make sure you brush before going to bed every night.
2. Brush properly- The way you brush is equally important. Take your time, move the toothbrush in gentle, circular motions to remove plaque.
3. Don't neglect your tongue- Give time to clean the tongue since plaque can build up on the tongue too and can lead to bad odour.
4. Use a fluoride toothpaste- Fluoride defends your oral health against germs and keeps tooth decay away.
5. Treat flossing as important as brushing- This simple task can clear little pieces of food caught in between the teeth. Flossing regularly can also stimulate the gums and lower inflammation.
6. Consider using a mouthwash- A mouthwash helps in three ways: It reduces the acid amount in the mouth, cleans hard-to-brush areas in and around the gums, and re-mineralizes the teeth.
7. Have a good diet- Eat a healthy diet to provide the necessary nutrients like vitamin A, vitamin C and calcium. Have crunchy fruits and vegetables like apple, pear, carrot etc. in the diet. They get the jaws working, which boosts the production of saliva. Avoid cigarettes and tobacco, which are known to contribute to gum disease and oral cancer.
8. Limit sugary and acidic foods- They can erode the enamel from teeth and lead to cavities. Tea and coffee can also wear down the tooth enamel.
9. See your dentist at least twice a year- Not only can a dentist remove plaques and look for cavities, but they will also be able to spot potential issues and provide corresponding treatment.

Playing video games can be beneficial

Video games are often dismissed as unsophisticated or the domain of couch potatoes, but did you know that many common elements of video games can provide various benefits in real life.

- Controller based games can be great for your hand-eye coordination. In a study involving a group of researchers found that those who played video games were faster at performing advanced procedures.
- Gaming is really a workout for your mind. Studies have shown that playing video games regularly may increase muscle control, memories, perception, and spatial navigation in the brain and boost brain connectivity.
- Past research involving children found that those who played video games were more likely to have good social skills, better relationship with other students and better performance academically.
- One long term study showed that children who played strategy based games had an improvement in problem solving skills and thus, tended to get better grades.
- Studies have shown that some video games can boost mood and make for better heart rhythm, a sign that may also help relieve stress. Video games can have mental health benefits.
- With video games you either win or you keep trying, learning from your mistakes as you progress until you reach the goal.

So video games can teach people to be more confident, treating each misstep as just another learning opportunity.

Note: Playing video games for more than 2 hours a day is not recommended.



**Collected by
Raghav Maheshwari,
Vapi**


खेल खेल में

Which path will lead the ball to the hoop?



पहेलियाँ

- 1) What comes next in the series ?
1, 2, 6, 24, 120, 720,?



- 2) Find the odd one out

Last edition Spot the differences done by
Vapi - Rajneesh, Rahul Patel, Asif Shaikh,
Priyanka Dubey

पिछले अंक में प्रकाशित रिडल्स के सही जवाब है...

1. 31121314
2. All of them are boys.

रिडल्स के सही जवाब देने वालों के नाम है...

Surat- Darshan
Vapi- Shubham Maheshwari, Rahul Patel

रिडल्स के सही जवाब आपको 15th August तक भेजने है।

जिनके भी जवाब सही होंगे, उनमें से लकी ड्रॉ के द्वारा 5 नाम चुन कर संवाद के अगले अंक में उत्तर के साथ प्रकाशित किए जाएंगे।



Opening of New Office Premises, MLL Gandhidham



Vaccination Drive for MLL staff, Vapi



MLL in Print Media

Financial Weekly
SMART
INVESTMENT

25th April 2021 to 1st May 2021 **21**



SMART
BUY OF THE WEEK



Dark Horse

Dark Horse-1

Maheshwari Logistics Ltd

(Listed only at NSE) (118) (Face Value Rs.10)

Incorporated in 2006, Maheshwari Logistics Limited (MLL), offers a diversified business model, promoted by Maheshwari and Kabra Family. MLL is engaged in Logistics Service including providing procurement of Coal, Pet Coke, Lignite & Waste Paper and also engaged in Manufacturing of Kraft Paper. A combination of owned fleet and third-party fleet is their strength and hence it is the first choice by large corporate like Ultratech Cement, JK Cement and Ambuja Cement. They have an owned fleet of 100+ Trucks and associated with 3rd party truck owners and have 5,000+ trucks available at their disposal. Majority of their clients are from Cement, Paper, Textiles and Fertilisers, and they handled more than 30 Lakh tonnes of cargo. MLL ventured into manufacturing of Kraft Paper in 2015 through a strategic take-over of Daman Ganga Paper's existing plant at Ambhethi and started manufacturing 100% recycle Kraft Paper, which is used mainly in Packaging Industry. Company initially had manufacturing capacity of 72,000 MT per annum, which was increased to 90,000 MT per annum through Plant upgradation. Company has also set-up 8 centers for waste paper collection at Mumbai, Nashik and Surat, which is helping in consistent supply of raw material and at lower cost. Company has also setup a 4.5 MW Power Plant with Back Pressure Turbine, which would help produce steam for paper manufacturing as well as power generation and would lower power costs. Company's Paper manufacturing facility has recently executed an export order of 650.567 MTs and has further received a new order of 1040 MTs which will be executed in 1st week of May 2021.

With an equity capital of Rs.15 crore and reserves of Rs.115 crore, MLL's share book value works out to Rs.43.7.

During Q3FY21 it has stable superb numbers. For Q3FY21, MLL posted 12% higher PAT of Rs.3.51 crore as against PAT of Rs.3.13 crore on 8% higher sales of Rs.201.19 crore and an EPS of Rs.1.19.

Technically stock has given triangle pattern break out on weekly chart with huge volumes.

Investors can accumulate this stock with a stop loss of Rs.95. It may give very good returns in medium to long term.

Particulars	3 Months Ended		
	Q3FY21	Q3FY20	% Var.
Sales	201.19	185.63	8%
PAT	3.51	3.13	12%



Cont...

Financial Performance for FY 2020-21

PAT FIGURES FOR QUARTER ENDED ON (RS. IN CRORES)



TOTAL REVENUE FIGURES FOR QUARTER ENDED ON (RS. IN CRORES)



EBITDA FIGURES FOR QUARTER ENDED ON (RS. IN CRORES)



YEAR ON YEAR COMPARISON (RS. IN CRORES)

